



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1940 (श0)
संख्या 35 पटना, बुधवार, 29 अगस्त 2018 (ई0)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-8	
पूरक	---	
पूरक-क	9-10	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

4 अगस्त 2018

सं० BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15--669---ग्रामीण कार्य विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-573 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा अंतराष्ट्रीय सड़क संघ, जेनेवा के सौजन्य से बर्मिंघम विश्वविद्यालय (यू०के०) में दिनांक 10-14 सितम्बर, 2018 की अवधि में प्रस्तावित Rural Roads for Development Course से संबंधित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है :-

- श्री नलिन कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता सह परियोजना प्रबंधक, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक)।
- श्री ठाकुर प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता सह सहायक परियोजना प्रबंधक, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक)।
- श्री सुभाष कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता सह सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी)।
- श्री कुमार राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रकोष्ठ।
- श्री संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना।

इस क्रम में प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरांत उपर वर्णित पदाधिकारियों को दिनांक 15-22 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए Ex- India Leave एवं यू०के० भ्रमण की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15 के पृष्ठ-74/टि० पर प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, विशेष सचिव।

The 4th August 2018

No. BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-669--Vide Departmental Sanction Order no.-573, dated-05.07.2018, following officers of Rural Works Department has been allowed to attend proposed training programme from 10-14th Sept, 2018 on "Rural Roads for Development Course" organised at University of Birmingham (U.K) in association with International Road Federation, Geneva :-

- Mr. Nalin Kumar Sinha, Executive Engineer cum Project Manager (MMGSY, World Bank Project)
- Mr. Thakur Pramod Kumar, Assistant Engineer cum Assistant Project Manager (MMGSY, World Bank Project)
- Mr. Subhas Kumar Singh, Executive Engineer cum Officer on Special Duty (Technical) to Secretary, Rural Works Department.
- Mr. Kumar Rajeev Ranjan, Executive Engineer, PMGSY Cell.
- Mr. Sanjay Kumar Sinha, Executive Engineer, Works Division, Patna.

On completion of training an Ex-India Leave from 15th -22nd Sept, 2018 is being sanctioned to above mentioned officers for U.K tour.

Approval of the competent authority, for the same, has been obtained at page-74 (noting) in file no.-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAYA KUMAR, *Special Secretary*.

4 अगस्त 2018

सं० BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-671--श्री भगवत राम, जिला अभियंता, मु०अ०-1 कार्यालय-सह-नोडल पदाधिकारी, PMGSY, BRRDA, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2658 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सौजन्य से बर्मिंघम (यू०के०) में दिनांक 10-14 सितम्बर, 2018 की अवधि में प्रस्तावित Rural Roads for Development Course से संबंधित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इस क्रम में प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरांत दिनांक 15-22 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए Ex- India Leave एवं यू०के० भ्रमण की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15 के पृष्ठ-74/टि० पर प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, विशेष सचिव।

The 4th August 2018

No. BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-671--Sri Bhagwat Ram, District Engineer, CE-1 office-Cum-Nodal Officer, PMGSY, BRRDA, Rural Works Department, Bihar, Patna has been nominated by Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi to attend proposed training programme on Rural Roads for Development Course at Birmingham (U.K.) during 10-14th Sept, 2018. This has been sanctioned vide departmental sanction order no-2658, dated-05.07.2018.

On completion of training an Ex-India Leave from 15th -22nd Sept, 2018 is being sanctioned for U.K tour.

Approval of the competent authority, for the same, has been obtained at page-74 (noting) in file no.-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAYA KUMAR, *Special Secretary*.

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

21 अगस्त 2018

सं० भा०व०से० (स्था०)-07/2018/2327/प०व०—श्री सुधीर कुमार कर्ण, भा०व०से०, (2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री सुधीर कुमार कर्ण, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०)-07/2018/2328/प०व०—श्री संजय प्रकाश, भा०व०से०, (2008), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०)-07/2018/2329/प०व०—श्री पातंजली चौधरी, बि०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश

20 अगस्त 2018

सं० अ०स०क०-01-106/2016/80—शिक्षा विभाग, पटना के संकल्प सं०-945 दिनांक 27.04.2017 एवं निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक 1290 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करते हुए निम्नलिखित अनुदेशकों को

समुह 'घ' (कार्यालय परिचारी) के पद पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में वेतनमान 2550-3200 ग्रेड पे-1800/- सातवां वेतन पुनरीक्षण का प्रारम्भिक वेतन एल0-1, 18000/- रु0 एवं अन्य भत्ते के साथ पूर्णतः अस्थाई रूप से समायोजित करते हुए नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	जाति/कोटि	गृह जिला	पदस्थापन का कार्यालय
1	मो० जुबैर आलम	रईसउद्दीन	01.04.1973	सामान्य	किशनगंज	जि०अ०क० कार्यालय, सुपौल
2	मो० मेंहदी हुसैन	मो० हनीफ	15.07.1973	सामान्य	किशनगंज	जि०अ०क० कार्यालय, पश्चिम चंपारण
3	मो० तसीबुर रहमान	मोहिदबक्स	16.07.1973	सामान्य	किशनगंज	जि०अ०क० कार्यालय, मधुबनी
4	मो० वसी अहमद	एताउर रहमान	25.10.1973	सामान्य	किशनगंज	बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना
5	कुमारी प्रतिभा मिश्रा	राजेश मिश्रा	05.11.1974	सामान्य	पश्चिम चम्पारण	जि०अ०क० कार्यालय, समस्तीपुर

2. समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है।

3. वे योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिप्रमाणित छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति, दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र की मूल एवं हाल का दो रंगीन पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटो प्रस्तुत किया जायेगा।

4. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में योगदान करेंगे अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द मानी जायेगी। योगदान करने के लिए किसी प्रकार का मार्ग-व्यय देय नहीं होगा।

5. दिनांक 01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।

6. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित कार्यालयों द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।

7. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि कोई भी गलत प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र जमा किया गया है, तो इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आदेश से,

मो० एस० आई० फसल, विशेष सचिव-सह-निदेशक।

Building Construction Department

Notification

The 10th August 2018

No. Bhawan/Stha-P.3-Padsthapan-01/02(Part) 8601 (Bh)--In exercise of the powers conferred by Section-2 (b) read with S.O. No.-11038 dated-23.12.2008 of the Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) Act., 1956 (Bihar Act.-XX of 1956) and in Supersession of all Previous Orders of the Subject, Sri Ajeet Kumar Ram, Deputy Secretary to the Government in the Building Construction Department is hereby authorized to perform the functions of the Competent Authority, as define in Section-2 (b) of the Act, to the extent of powers and for the areas specified herein below:-

Area and Extent of Powers	Competent Authority
Eviction of Unauthorized Occupants from any Government Premises, as define in Section-(c) read Section-2 (d) of the Act, located in the New Capital Area, Patna as specified in the Schedule here to annexed.	Deputy Secretary to the Government of the Bihar in the Building Construction Department.

SCHEDULE**Boundaries of the New Capital Area, Patna**

- North:-** Villages Shekhpura, Shenulahpur, Dhakanpura, Mahuli, Dujra, Dujra Diara, Rajapore and Hasanpore.
- South:-** Railway line and Villages Yarpur, Dhakanpura and Dhirachak.
- East:-** Bakarganj Nala from the bank of the River to the Government Land near Daldali Bazar, Moharampur, Bankipore Chief Justice's Compound on the Eastern Side, Fraser Road and Patna Junction Station.
- West:-** Villages Sadhanpore, Samanpura and Shekhpura.

By Order of the Governor of Bihar,

Chandrashekhar Prasad Singh, *Deputy Secretary.*

VIGILANCE DEPARTMENT**BIHAR, PATNA****FORM No. I****DECLARATION**

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 3rd August 2018

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-09/2016--3104--WHEREAS, It is alleged that **Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Engineer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, Village-Bhairokhara, P.S. - Tajpur, District - Samastipur,** while holding the post of **Sri Satya Narayan Mahto, Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Engineer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur,** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 18/2015 dated 03.03.2015.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto the then Superintending Engineer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

Declaration Memo no. 4264 dated : 16-10-2017 is hereby ammended accordingly.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, *Principal Secretary.*

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2018

सं० 6/वि०पत्रा०-24-22/2016-2478/वा०कर-बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ श्री राजीव कुमार, राज्य-कर विशेष आयुक्त, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के लिये प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2018

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2018 सा०प्र०-10989—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-3512 दिनांक 06.08.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	01.07.2018 से 31.12.2018 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मुजफ्फरपुर
2	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-1817 दिनांक 12.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	31.12.2018 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सीतामढ़ी

3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)– सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–09 दिनांक 06.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	08.07.2018 के लिए	पंचायत उप निर्वाचन, 2018	कार्यपालक दंडाधिकारी	मुंगेर
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–2447 दिनांक 06.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	पंचायत उप निर्वाचन, 2018	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
5	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–2446 दिनांक 06.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	पंचायत उप निर्वाचन, 2018	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23–571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1150----I, Kumari Pallavi, D/o Akhileshwar Tiwari, R/o Mohalla- Mill Road Nawada, Ara P.S-Nawada, Ara District-Bhojpur, Bihar-802301 do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 25903 dated 11.07.2018 that I known by both name Kumari Pallavi and Pallavi. That the both names Kumari Pallavi and Pallavi is the name of one and same person. That now I will be known as Kumari Pallavi only.

Kumari Pallavi.

No. 1193----I, Sweta, W/o Nitish Kumar, D/o Anil Kumar Singh, R/o Road No-3, Arpana Colony, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna Vide Affidavit No. 203, Dated 07-07-2018 declare that I shall be known as Sweta Sinha for all purposes.

Sweta.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० BRRDA(HQ)MMGSY(PPP)-567/2015-Part-IV-704

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

11 अगस्त 2018

विषय:—किशनगंज जिले में **Hybrid Annuity Mode** के तहत ग्रामीण पथों के निर्माण के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए अन्य जिलों की भाँति पारम्परिक तरीके से “मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना” अन्तर्गत ग्रामीण पथों के पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कार्य करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-218 दिनांक 28.01.13 एवं 223 दिनांक 08.11.2017 के आलोक में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले राज्य कोर नेटवर्क के सभी अनजुड़े बसावटों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य के सभी जिलों में “मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना” कार्यान्वित एवं संचालित है।

2. इस क्रम में किशनगंज जिले में Pilot Project के रूप में Hybrid Annuity Mode के आधार पर अनजुड़े बसावटों को राज्य कोर नेटवर्क के आधार पर सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-224 दिनांक-08.11.2017 के आलोक में किये गये अधिकतम प्रयास में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण इसे रद्द करते हुए अन्य जिलों की भाँति पारम्परिक तरीके से ही “मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना” अन्तर्गत ग्रामीण पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कराया जायेगा ताकि अन्य जिलों की तरह किशनगंज जिला में भी ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

3. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घटकों के अंतर्गत प्राप्त बजटीय उपबंध के आलोक में ही किशनगंज जिले के ग्रामीण पथों का पारम्परिक तरीके से निविदा प्रक्रिया द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कराया जायेगा।

4. किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Mode के तहत ग्रामीण पथों के निर्माण के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए अन्य जिलों की भाँति पारम्परिक तरीके से “मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना” अन्तर्गत ग्रामीण पथों के पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

सं0 6/आ0—376/2006(खण्ड)सा0प्र0—11263
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 अगस्त 2018

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1431 दिनांक 27.02.2017 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार:1987), तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विरुद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक—2014) के प्रश्न-पत्र के परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हो जाने के मामले में भा0द0वि0 की धारा—419/420/467/468/ 471/34 एवं आई0 टी0 एक्ट की धारा—66/(डी.) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—1988 की धारा—13(2) के तहत अगमकुओं थाना में आपराधिक कांड संख्या—44/2017 दिनांक 04.02.2017 दर्ज किया गया।

2. प्रासंगिक आपराधिक कृत्य में श्री सुधीर कुमार की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर दिनांक 24.02.2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया तथा मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—3 के उप नियम—2 एवं उप नियम—3 के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिये जाने की तिथि 24.02.2017 से विभागीय आदेश संख्या—2628 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार सम्प्रति न्यायिक हिरासत में ही हैं। उनके विरुद्ध इस मामले में विधि विभाग, बिहार के आदेश संख्या—95/जे. दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के अधीन अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस मामले में उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय ज्ञापन ज्ञापक—5469 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करते हुए बचाव बयान मांगा गया है।

4. अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—3(8)(d) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार: 1987) के निलंबन की समीक्षा राज्य निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 13.08.2018 को की गई। श्री कुमार के न्यायिक हिरासत में रहने एवं इनके विरुद्ध दर्ज मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के निहित होने के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

5. अतः दिनांक 13.08.2018 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार: 1987) तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:—यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>